

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13072024-255422
SG-DL-E-13072024-255422असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2024/आषाढ 20, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 99
No. 181]	DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2024/ASHADHA 20, 1946	[N. C. T. D. No. 99

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

संख्या-56/2023-राज्य कर

सं. फा. 3 (04)वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/572.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं. फा. 03(84)/वित्त(व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 में प्रकाशित इस सरकार, की अधिसूचना सं. 35/2020- राज्य कर, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं.फा. 03(115)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/313 तारीख 17 नवंबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2021- राज्य कर, तथा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं.फा.03(22)/वित्त (व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/818, तारीख 12 अक्टूबर, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2022-राज्य कर, तथा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं. फा. 03(02)/वित्त (व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/548, तारीख 22 जून, 2023 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 09/2023- राज्य कर, के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त

अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, सदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करते हैं, अर्थात् :-

(I) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 30 अप्रैल, 2024 तक

(II) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 31 अगस्त, 2024 तक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय-I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th July, 2024

No. 56/2023-State Tax

No. F. 3 (04)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/572.—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in partial modification of the Government Notification No. 35/2020-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288, dated 24th March, 2021 and Notification No. 14/2021-State Tax published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (115)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/313, dated 17th November, 2021 and Notification No. 13/2022-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (22)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/818, dated 12th October, 2022, and Notification No. 09/2023-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (02)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/548, dated 22th June, 2023, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub- section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, relating to the period as specified below, namely:—

- (i) for the financial year 2018-19, up to the 30th day of April, 2024;
- (ii) for the financial year 2019-20, up to the 31st day of August, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)